

## वाणिज्य विभाग का औद्योगिक भ्रमण

लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा 11/01/ 2022 को वाणिज्य संकाय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गोविंद गन्धे के मार्गदर्शन में शैक्षणिक भ्रमण हेतु **उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में औद्योगिक दौरा** किया गया। औद्योगिक दौरे का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक कार्य एवं वातावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देना एवं विद्यार्थियों को नई तकनीकों के बारे में जागरूक करना है।

इस भ्रमण का नेतृत्व वाणिज्य विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ. अक्षिता तिवारी ने किया तथा उनका सहयोग संकाय सदस्य डॉ. केतकी त्रिवेदी, डॉ. शीतल कुमार शर्मा, डॉ. मीनल वनवट, डॉ. स्मृति जैन, डॉ. नितिशा तोषनीवाल, डॉ. ममता पंड्या के द्वारा किया गया।

औद्योगिक दौरे में 30 विद्यार्थियों ने भागीदारी की। कोविड-19 के नियमों के तहत विद्यार्थियों को दो समूहों में विभाजित किया गया और डेयरी उद्योग के सीईओ श्री डी. पी. सिंह की अध्यक्षता में डेयरी के स्टाफ सदस्य श्री शुभम जी एवं श्री काले जी के द्वारा विद्यार्थियों को क्षेत्र संचालन, संयंत्र संचालन, पैकेजिंग, मार्केटिंग आदि गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। आपके द्वारा विद्यार्थियों को बताया गया की साँची दुग्ध संघ उज्जैन के मकसी रोड स्थित मुख्य डेयरी प्लांट है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी एवं इसकी प्रतिदिन क्षमता 2.50 लाख लीटर है।

संयंत्र में विभिन्न उत्पादों के निर्माण को दिखाने हेतु प्लांट के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कराया गया जहां पनीर, घी बनाने की प्रक्रिया, दूध का पाश्चुरीकरण, श्रीखंड, लस्सी, पेड़ा, मट्ठा, सुगंधित दूध और अन्य डेयरी उत्पाद का निर्माण किया जाता है। उन्होंने विभिन्न ग्रामीण भागों से दूध का संग्रह शुरू करने से लेकर सांची दूध और अन्य डेयरी उत्पादों को विभिन्न सांची बिंदुओं पर भेजने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताया। विद्यार्थियों के सभी जिज्ञासा पूर्ण प्रश्नों का उचित उत्तर के द्वारा संतुष्ट किया गया। इस तरह यह औद्योगिक दौरा बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोमांचित रहा है।